



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1934 (श0)
(सं0 पटना 168) पटना, बुधवार, 25 अप्रील 2012

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
25 अप्रील 2012

सं0 4 (न) गठ-14/08-1461—चूँकि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) का गठन करने का निर्णय लिया गया है,

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है।

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 27 मई, 2012 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शशि शेखर शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 168-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>